

# सभी के लिए कैलगरी के पार्कों और प्राकृतिक क्षेत्रों की रक्षा करना – अपनी संपत्ति की सीमा को जानें



पार्क की जगह सभी कैलगरी निवासियों के आनंद लेने के लिए उपलब्ध है। अपनी संपत्ति सीमा से परे भूमि में संशोधन या निर्माण प्राकृतिक क्षेत्रों में नाजुक पर्यावरण संतुलन को बाधित करता है, सुरक्षा संबंधी मुद्दे बनाता है और इन स्थानों का आनंद लेने के लिए सभी नागरिकों की क्षमता में हस्तक्षेप करता है। पार्क की जगह पर अतिक्रमण को **अतिक्रमण (Encroachment) उपनियम 9M2020** के तहत नियंत्रित किया जाता है।

## अतिक्रमण क्या है?

अतिक्रमण तब होता है जब किसी भी प्रकार की संरचना, लैंडस्केपिंग या अन्य सुधार एक घर के मालिक की संपत्ति से शहर के स्वामित्व वाली संपत्ति तक फैला होता है। अतिक्रमण में एक संपत्ति लाइन के पीछे महत्वपूर्ण रूप से घास काट के, फायर पिटों का निर्माण करके, गैर-देशी वनस्पतियों लगा के, इन प्राकृतिक क्षेत्रों के भीतर खाद के डिब्बे रख के और किलों का निर्माण करके प्राकृतिक क्षेत्रों में नाजुक पर्यावरण संतुलन को बाधित करना शामिल है। उपनियम 9M2020 शहर के स्वामित्व वाली पार्क भूमि पर अतिक्रमण करने को अपराध बनाता है, यदि अतिक्रमण जारी रहता है तो घरों के मालिकों को संभावित रूप से जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है।

## घरों के मालिकों के लिए इसका क्या अर्थ है?

कृपया विचार करें कि आप पार्क की जगह के साथ सीमा कैसे साझा करते हैं।

- अपनी संपत्ति की सीमा के बाहर घास को न काटें, न ही पौधों की छँटाई करें या पौधों को हटाएं। ऐसा करने से परागणकों और अन्य वन्यजीव प्रजातियों के लिए महत्वपूर्ण पौधे नष्ट हो सकते हैं।
- गड्ढे न खोदें, जंप, किले या शेल्टर न बनाएं। ये सुरक्षा मुद्दों को पेश कर सकते हैं और प्राकृतिक क्षेत्रों में नाजुक पर्यावरण संतुलन को बाधित कर सकते हैं।
- गंदगी, बगीचे या यार्ड का कचरा न फेंके। ऐसा करने से आक्रामक पौधे दाखिल हो सकते हैं।
- पेड़ों, झाड़ियों या अन्य प्राकृतिक तत्वों को न काटें, न ही उनकी छँटाई करें या उनको हटाएं। यह प्राकृतिक क्षेत्रों को अस्तव्यस्त कर सकता है।
- पेड़ या वनस्पति न लगाएं। यह हमारे पार्क स्थानों में गैर-देशी पौधों और खरपतवारों को शामिल करता है।

हम यह सुनिश्चित करने के लिए घर के मालिकों के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि पहचान की गई संरचनाओं, वस्तुओं या लैंडस्केपिंग अतिक्रमणों को हटा दिया जाए और पार्क की जगह को उसके मूल इच्छित उपयोग में वापस कर दिया जाए। अतिक्रमण के बारे में अधिक जानकारी के लिए, कृपया [calgary.ca/encroachmentparks](http://calgary.ca/encroachmentparks) पर जाएं या 311 पर संपर्क करें।